



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2—मार्च 8, 2013 (फाल्गुन 11, 1934)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2—MARCH 8, 2013 (PHALGUNA 11, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. एन-15/13/16/6/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2013 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	राजस्व गांव	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	पट्टी-गदर	19	कैथल	कैथल
2.	पट्टी-चौधरी	20	कैथल	कैथल
3.	पट्टी-डोगर	21	कैथल	कैथल
4.	पट्टी-खोट	22	कैथल	कैथल
5.	पट्टी-अफगान	23	कैथल	कैथल
6.	पट्टी-कैस्थ सेठ	24	कैथल	कैथल
7.	कंकरा	232	शाहबाद	कुरुक्षेत्र
8.	झमरा	253	शाहबाद	कुरुक्षेत्र

एस. रविचन्द्रन
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/9/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2013 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

केन्द्र	निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव
मदुरै जिले के उत्तर मदुरै तालुक में अनैयूर नगरपालिक पोदुंबु	1. अनैयूर बिट I व II 2. कोयिलपाप्पाकुडी 3. मिल्लकरनै 4. एस. आलंगुळम 5. पोदुंबु (बिट I व II) 6. भूतक्कुडी 7. कुलमंगळम (बिट I व II) 8. मेलापनंगुडी 9. कीलपनंगुडी 10. वागैकुलम 11. वडुगपट्टी

एस. रविचन्द्रन
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/8/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2013 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम--1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

केन्द्र	निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव
तिरुनेलवेली जिले के अंबासमुद्रम तालुक में दक्षिण वीरवनल्लुर	1. दक्षिण वीरवनल्लुर

एस. रविचन्द्रन
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/13/1/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2013 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम--1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

क्रम	राजस्व गांव	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	जिला
सं.				
1.	कटरी पीपर खेडा	हडहा	उन्नाव	उन्नाव
2.	मझरा पीपर खेरा	हडहा	उन्नाव	उन्नाव
	एहत माली			
3.	नेतुवा ग्रामीण	सिकन्दरपुर	उन्नाव	उन्नाव
		सरोसी		
4.	खैरहा एहत माली	सिकन्दरपुर	उन्नाव	उन्नाव
		सरोसी		

एस. रविचन्द्रन
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

हैदराबाद, दिनांक 29 जनवरी 2013

सं. 52 एन/11/12/02/2008-09-एस.एम.सी.--दिनांक 25.04.1951 को आयोजित क.रा.बी. निगम की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में क.रा.बी. (सामान्य) विनियम 1950 के नियम 105 के अधीन महानिदेशक को प्रदत्त निगम की शक्तियां, तथा फाइल संख्या-पार्ट फाइल; यू-13/12/13/2005-पी.टी.एम.आर. (चिकित्सा-1 दिनांक

04.08.2008, पैरा-11, चैप्टर-11-स्थानीय कार्यालय मैनुअल, एस.एस. एम.सी./एस.एम.सी. के द्वारा महानिदेशक द्वारा मुझे सौंपी गई शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए मैं, निम्नलिखित चिकित्सक को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों से, नियमानुसार देय पारिश्रमिक पर एक वर्ष के लिए अथवा (पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण कर लेने तक, जो भी पहले हो) निम्नलिखित क्षेत्र/केन्द्र के आर्बिट्रि बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच के प्रयोजन के लिए जिनका मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र संदेहास्पद है, कि पुनः चिकित्सा परीक्षा कर उसका प्रमाणन करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी (पी.टी.एम.आर.) के रूप में प्राधिकृत करता हूँ:--

नाम	अवधि	केन्द्र/स्थान/जिला/ राज्य का नाम
से	तक	
डॉ. जे. कालेश्वर राव, एमबीबीएस, एम.बी.ए. संयुक्त निदेशक (IMS), सेवानिवृत्त, 46-15/21/1, पार्कगेटस्ट्रीट, दानवय्यापेट, राजमंड्री-533103	29.01.2013 28.01.2014	विजयवाड़ा, एलुरु, गुंटूर, राजमंड्री, तनकु काकीनाड़ा तथा नेल्लोर

आर. के. कटारिया
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त

बिहार ग्रामीण बैंक

बेगूसराय, दिनांक 16 नवम्बर 2012

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बैंक और यूको बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इन नियमों के नाम बिहार ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से बिहार ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या--एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन--अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान--बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची--(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक की अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक की यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन--(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम)--बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन-- यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए

अधिवेशन स्थगित हो, उसे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार--(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो, उसके द्वारा विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उप-नियम (1) के अंतर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला पारिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख--(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कार्यवृत्त पुस्तक" कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर तारीख डाली जाएगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जाएंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्ठ के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशन के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का लक्ष्य होगा।

ह./- अपठनीय

(अध्यक्ष)

कृते बिहार ग्रामीण बैंक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 30th January 2013

No. N-15/13/16/6/2012-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director general has fixed the 1st February, 2013 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' state Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast	Tehsil	District
1.	Patti-Gadar	19	Kaithal	Kaithal
2.	Patti-Choudhri	20	Kaithal	Kaithal
3.	Patti-Dogar	21	Kaithal	Kaithal
4.	Patti-Khot	22	Kaithal	Kaithal
5.	Patti Afgan	23	Kaithal	Kaithal
6.	Patti Kaisth seth	24	Kaithal	Kaithal
7.	Kankra	232	Shahabad	Kurukshetra
8.	Jhamra	253	Shahabad	Kurukshetra

S. RAVICHANDRAN
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/14/9/2012-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2013 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' state Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Area Comprising the Revenue Villages of
Anaiyur	1. Anaiyur Bit I & II
Madurai North Taluk,	2. Koilpappakudi
Madurai District	3. Milakaranai
	4. S. Alangulam
	5. Pothumbu (Bit I & II)
	6. Boothakudi
	7. Kulamangalam (Bit I & II)
	8. Melapanangadi
	9. Keelappanangadi
	10. Vagaikulam
	11. Vadugapatti

S. RAVICHANDRAN
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/13/1/2012-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director general has fixed the 1st February, 2013 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' state Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely :—

Sl. No.	Revenue Village	Revenue Pargana	Revenue Tehsil	District
1.	Katari Pipar Kheda	Hadha	Unnao	Unnao
2.	Majhara Pipar Kheda Ahatmali	Hadha	Unnao	Unnao
3.	Netuwa Gramin	Sikandarpur Sarosi	Unnao	Unnao
4.	Khairha Ahatmali	Sikandarpur Sarosi	Unnao	Unnao

S. RAVICHANDRAN
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/14/8/2012-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2013 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' state Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Area Comprising the Revenue Villages of
South Veeravanallur, Ambasamudram Taluk, Tirunelveli District	South Veeravanallur

S. RAVICHANDRAN
Jt. Dir. (P&D)

Hyderabad, the 29th January 2013

No. 52-N/11/12/02/2008-09/SMC—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No. Pt.file-U-13/12/13/2005-PTMR-(Med.I), dated 04.08.2008, vide Para-11, Chapter-XI of Local Office Manual, SSMC/SMC. I hereby authorized the following doctor(s) to function as Medical Authority

(PTMR) at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt :—

Name	Period		Name of Centre Place/Distt./State
	From	To	
Dr. J. Kaleswara Rao, MBBS, MBA Joint Director, IMS (Retd) 46-15/21/1. Park Gate Street, Danavayapet, Rajahmundry-533103	29.01.2013	28.01.2014	Vijayawada, Eluru, Guntur, Rajahmundry, Tanuku, Kakinada and Nellore

R. K. KATARIA
Senior State Medical Commissioner

BIHAR GRAMIN BANK

Begusarai, the 16th November 2012

In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the National Bank and UCO Bank hereby makes the following rules namely :—

1. Short Title and Commencement :—

- (1) These rules may be called the Bihar Gramin Bank (Meeting of Board) Rules, 2005;
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);
- (b) "bank" means the Bihar Gramin Bank;
- (c) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively; assigned to them in the Act.

3. Minimum Number of Meeting of the Board :—

The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of Meetings :—

Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the Meetings :—

The meeting of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of Meeting and List of Business :—

- (1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board;
- (b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every Director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every Director at the address specified by him in this behalf;
- (c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice;
- (d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the Directors present.

- (2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special Meeting of the Board :—

- (1) The Chairman shall call a meeting of the Board after requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.
- (2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.
- (3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a Meeting :—

A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of Sub-section (4) of the Section 14 of the Act any Director if unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum :—

If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the Director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by Circulation :—

- (1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs for specific reason

to be recorded by him in that behalf be referred to Directors (other than Directors who are absent from India) by circulation of papers.

- (2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of Directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the Directors present at a meeting.
- (3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.
- (4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the Directors.
- (5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at next meeting for record.

11. Records of Business :—

- (1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the Director, as the case may be who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

- (2) Copies of such minutes shall be forwarded to each Director as soon as possible after every meeting.
- (3) When a business transacted by circulation of papers as record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.
- (4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.
- (5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

Sd/- (ILLEGIBLE)

Chairman

For Bihar Gramin Bank

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013